

েরাসুবর (ক্রমিরা) জা জার্কের, উপ্টান বংগ্ ২৫ দিনা ৬৫ টার রন্মার ধুক্রে: একা মান্য সোগোলাকরা করা ৪ (কা মারকাক) বাংগেরী(IAL CST & উৎসের)

> अधितीय जल, जी एम ही भवल २ २ ी मठतर, २२ म व्यासमाल, देस कॉर्म देन गण, - Roce (for se Ring Read)

गुजन्महिः Rajine - Avi 411 सन्दर्भाष- क्रम्प्रे - व्यक्ति - व्यक्ति - व्यक्ति

Tele Fox Sin (1241 - 217745270411412 Tenedo assagreators (Sin Sprincherer

<u> अनित्दर्ध अन्त रा प्री. इ</u>ल्प्याः

क — अमीम y जटन शतका / Appret / Miterro, Reconstruytryscon र ন্ত্র সেইখা সা। দেশ (স. ৬৬ নিগ/সের্জেম/চাপ/চর্চাল-চা โร-การ / - โรคโต - 27.00.203 ก

a — अनेल अस्त्रि २४व्याCride, ha Abbell Solt.

BHV-EXCUS-000-APP-005-2018-19

इत्तित प्रा दिनोप्ट / Sate of — 82.04.2018 Order:	जारी जरने की सारिखा/ चित्र€ानी issues	12.04 20LS
------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------

Passor b- Bhri Gopi Aeth, Additional Dizentor General (Aud#), Abuedahaŭ Zovaj Unir, Abuedebed.

में दियाने सेंच्या रूपरुप्र के गुप्त (प्रायोग दिस सामग्रेक करते थे प्राया क्यांकी सीकिया देश का स्थित एक प्रायोग पित्रान्त स्वास के अनुसरण ये की बोगी जांग, आज प्रायुक्तेंस्वान सीकिया रहा साम अभाव दुनिय को विरस आयोगेक्स स्थाप्त के सार्व्या के दिया के दिया सामग्रीमां के रूप में में प्राय सेंग्रेंग रही की पहे गरीकों के सारक्षे से सुरोग वाकिस द्वार्थ के प्रदेश सामग्रीमां प्रतीमों के रूप में सिन्द्रन निया तथा है

Departmente de Bornilo Set Fration No. 25/2017/5 (5. j. 5. debei - Andrea Ser Fratiwork Hourits Hinter No. 37/2017 37 Build 16 11.2017, St. e. deta Nati-Additional Director General of A diit. Along anal. Social General Amediated has been appainted as Appelling Antibuly 2011/2017 performed from sing orders in respect of appellate from uniter Section 35 st. Control Dates Art, 1944 appl Section 35 of Section Asp. 100.

- र अगर अभूमर्थः अन्तः आनुम्तः अभुम्तः अभुम्तरं राजन्तः, तम्द्रीयः अन्तः इत्यः वेशायतः, व्याणेषः ज्यानस्य । अन्तर्भव्यम्। प्राप्तः एग्रासितम् जर्भा मृत्यु अन्तिः २ पुष्टिनः । स्वर्ण्याषुः ज्याः वर्षः तत्र्व्यः कल्प्रीक्षर्यः २ २ वे दिश्यात्त्रे एवः Additaaniy-Satu/Deveto/Assistan Communitie et, Communitizeva (Secure Cas, Refer) / Jernagan / Secultidaem
- C ा मेलकर्ती & मी)जले का साम एव पता /N(205 & Address (Clife Appellants & Restands it W/S World Motion: Old 245 Song Factory, Near patel Boardingpoint hehead Alas Comme Obarragan.

্ৰয় এটেলাগ্ৰন্থৰা বা প্ৰতিয়া কাই আৰিও টেম্বেটিনিয়া বৃষ্ঠিক হা চুন্বুলয় মাহিকাই ও আইক্ষেত্ৰ প্ৰবিদ্যালয় বা এনীনি এইৰ ভৱ বাজনা হঁছে এনাহে person ব্যক্তমন্দ্ৰৰ by this birder in Appeal way file to oppeal you're upprovide autors জ উদ্ধিতি উটেচনটেই ব্যক্ত

- (5) এইবা শ্বেষ্ঠা এইবার মূলক হয় প্রশান হয় প্রথমের এমার্টার ন্যানাটবুলাম ব্যায়াই উপচিং উল্টেয় হেম্বর প্রথম নাই নির্মান একের কি শার হিটার ও এন ও ৫৭ টিনা র মিটিয়া ন 1094 কি শার ৪৪ টা রীয়া কিল্টাই ইয়া দেশা হয় বি বা ন্যানা হৈছে কুম্বেল্টা চা Customs, Inclusion & Set Stati Appelliate Tributed Under Section 26D of CCA 1514 ন Custom Station 86 of the Party in Appelliate Tributed Under Section 26D of CCA 1514
- (i) वरीकरण सुरुषांत्रक हे सामग्रीमान राती पानने सोमा राजक कल्दीय उत्पादक राजक गये देवलर इसीतीय अवायोशिवरण भाषेत्रीय गंड प्रेस्ट व्यक्ति स ∠ाभ्यत्रक देखा, तर्ह दिल्ली यहे ती केली व्यक्ति ए मार्ग्य special benefit of Costonial Decision Sciences Las Appendix To Area of Area Block Soci 2.K. Ec.com, New 2000, 1000 receiver refelling to a spectral on and very setter.
- 00 एमरोपल गरिन्द्रेक (15) में इसके नाम (मोर्ज के प्रात्मक केंग्रे सभी 10% वर्षमा २००१ केंद्रीय उत्तर व रहक ए वीवाकर सभीकी मजनवामिकरण (सिर्देश) की प्रदिन क्षेत्रीय प्रीतिज्ञा, दर्भितीकी स्वत, ब्लूलस्ति स्वार्ग शहरू कहल्यानी, उदरकार, को की वाली काहित ह

(3) The West regimed Levels of Constants, Excessed Strangers for Appellary Pathwar, CPR120100, Sec. Star, Pathward, Prevent, Assesse Ammutated-SSEC Is in Lase of appreciate Constant Star mentioned at sevel 372 above.



(4) अ (अंध क्याधारिकरण के रूपम तरीज सामन करन का थिए केन्द्रीय सभाद प्राप्त (उपहेल) प्रायुनाकरी, 2000, का जेवला स्रे अन्तर्ग निधीरित निए कर पित्र 85.3 को संस्थानित में उस किंग साम कालिए जुल्लों स करत से कल एक वर्ति का साथ, त्यार प्राप्त क्षुवर की सींग स्वयंभ दा भोग और अक्षण कर जुर्मात, पंच का াৰ দেনে বিদ্যালয় বিদ্যালয় সময় সময় বিদ্যালয় কৰা কৰা কৰা বিদ্যালয় বিদ্যাহ কৰা কৰা কৰা বিদ্যালয় বিদ্যালয় গুৰু না নগাঁ বিদ্যালয় বিদ্যালয় কৰা মাডিট সাব কৰা দেশ মহলা হয় নাম কৰা বিদ্যালয় বিদ্যালয় 1.0000 পগৰা চলবাৰ, মলানহা সাবিদ্যা যে নাম কৰা নিশ্বিক কৰা বাবে বিদ্যালয় বিদ্যালয় কৰা বিদ্যালয় পুৰু বা দেশমান, মলানহা সাবিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় কৰা বিদ্যালয় বিদ্যালয় বি বিদ্যালয় বিদ্যালয়, মলানহা সাবিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বি ी गरिनेका होता के मैंस दूसरा कार्य देख किस मैंसे अपने क्षेत्रक होता। प्राणा शाहित व मजादेत हुएत का भुरतान्त्र केंद्र की इन्द्र भाष्ट्र ने भीना माधिए केंद्र राज्यन करीनेका नगवातीकारण की राख्य विधान के राज्यका प्राईत (इन् भोगरों आ देश भारतेला-पुरा का मध्य 50 था तरुए का जिसीएंग शहर ज़मा अहल (20) ह

The arcsection the Approximation respectively in the provident state (a), a the arcsection the Approximation respectively from the respectively the first state of the structure of the structu

The appendimentation of the second (1) or Section (0) of the Donate (c), (0), so the Appendic State of State of other in quadratics in Prime State (appendicted and the State (b) in quadratics in Prime State (appendicted and the State (b) in the State (b) is a second set matrix. Second constraints are presented as second and experimentation sparse (b) is a second of the second constraints are sparse (b) in the second constraints are sparse (b) in the second constraints are sparse (b) in the second constraints (b) in the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (b) is a second constraint of the second constraints (c) is a second constraint of the second constraints (c) is a second constraint of the second constraints (c) is a second constraint of the second constraint (c) is a second constraint (c) i

મિતન સાંધાને અને માજી 1 તેરે છે હો કરે આ છે. ગાય છે, (2) પણ (25) છે. સંસ્થીત પૂર્વ પર પશે સ્થીપ પ્રોથમના 5 विश्वभयाती, 1964, के विश्वम 802 जब _{अंद्र}ात देखरा विश्वमिद्धा गणप 301 थान के या अच्छी दब एसक माथ भावतुम् , रैपलोग प्रभाव तुम्ब, उन्हे प्रायंत्रभा द्वार्थिवः अम्झ्रीय भूषद् कुक्त द्वार भाषि आहेषा के प्रायंत्र संघटन करे तुम्हा के एक पति प्रमर्थमंत्र द्वार्थ आहिए। योग तानुक्त द्वार कहानक लाखका तरक उन्हे प्रकत केन्द्रीय त्याह प्रतन्य प्रवानदे का तम तीव स्वयं पीतरण्ड की झाने जा कर व्यस का जिल्ही देव नाम झाने हैं। पात भी माथ स सेलपा करता। हमा

UP of and a constant and get (2) and (27) of the sector, 80 the Figures det 100% shall be from the SPV as presented with Rule 9 (2) and (27) of the sector, 80 the Figures det 100% shall be that the sector shall be easily as presented with Rule 9 (2) & \$255 of the Feynite Tax Rules, 100, and shall be easily denoted an integration of Commission of Dattail Rules of the sector shall be easily be of which shall be an integrated in the sector of the

मील श्रुमिए प्रतनिव प्रभाव शुला एव स्वापन भागितीन प्राधननम (ग्रेस्टेंग क प्राप्ते अमेली के ग्राम्स के कहतेत प्राप्त प्राप्त त प्रियिश - प्रोम्स की भार 35 के के आपके होते के कि कि गणिकितम, 1998 की भार 35 के अंग्रे के विनेतर को 21 जान, की रहे 11 दस करवा के प्राप्ति अपेलीक प्राप्तिकण में अपेल करत ज्यान उत्ताप श्रुम्ध सेन कर भार के 10 परिश्वत (1986), जब साम एवं जुसका दिवादित हूं या जुसका जब केवल जुमौता किंवरित है ना भूग्राज किया दाए करहे कि का का न अंग्रेस उटा कि जावे 1 को त्योंकि कर देने की दस उत्ताप स्वरूष्ट्र हमार स्वार्थ के 10 परिश्वत (1986), जब साम एवं जुसका दिवादित हूं या जुसका जब केवल जुमौता किंवरित है ना भूग्राज किया दाए करहे कि का का न अंग्रे के जावे के जावे के जावे के जिस त्यक्ति देन करी दस करने हथा स ल्योंक न हो lur-

वेबहेच हतात शास्त्र पद हेद्दापर के भारतेत प्रसार हुए रुप शहरत से संस्त शाहरू है

. तन् ।। णाने तन्ता त्रार

ΈĽ.

11

- ेन ३ जन की जा कई मध्य सारे
- रजनेत सन्त जिल्लामाने हे जिन्द्रभ 8 के अप्रयंग देव साम

An any adapt to be a start for the point of the term 2014 without at your of shall of shall all the point of the term of term of the term of term

Under Central Encise and Jervice Tax (Conviltemondect parts influde (i) Encourt determined ander Sector 12.2 (i) Anteon determined ander Sector 12.2 (i) Anteon determined anter a Central Cardination (ii) Anteon pays's encoder kind off the Central Central Sector (conded) From pays's encoder kind off the Central Central Sector (conded) From pays's encoder kind off the Central Central Sector (conded) From pays's encoder kind off the Central Central Sector (conded) From pays's encoder kind off the Central Central Sector (conded) From pays in the Sector of this contained shall for repays to the Sector (conded) (conductor From the Central Sector of this contained shall for repays to the Sector (conded) (conductor from the Central Central Central Central Central Sector (conded) (conductor From the Central Central Central Central Central Sector (conded) (conductor From the Central Central Central Central Central Sector (conded) (conductor From the Central Central Central Central Central Sector (conded) (conductor From the Central Central Central Central Central Central Central Sector (conduct) (conductor From the Central Central Central Central Central Sector (conduct) (conductor Central Central Central Central Central Central Sector (conduct) (conductor Central C

(i) अग्रेस र अवग्रे को प्रमाधितमा आगेदमा :

....

भेगर राख्या के ज्याक्षय आवश्य : Real-Son applification to Graduangent of India: दुश आहेत और प्रतिदेश से मिला जिस की छोटा सा को तो लेही में उत्पन्न सुरुष अधितप्रमा, 1991 और दास Galle के स्वास सिहार के अपनेत अगर दोनेने, भेगर परकार, प्रतिप्रधा जातिक अगरे, किन स्वास्था, त्वरंग विधाय, संग्रे की बाद दीय आहा, समय स्वर्थ, वहे दिस्ती 1999), यह केंद्रा जाना आहित ? विधाय, संग्रे की बाद दीय आहा, समय स्वर्थ, वहे दिस्ती 1999), यह केंद्रा जाना आहित ? के प्रतिप्रधा applied on first to the Univer Sometary, In the Government of Social Reviews केन्द्रिय के साम सामय के प्रियोध की प्रतिप्रदेश (Section Social Control Social Control Social Review), Disp केंद्र के सामय सामय के प्रतिप्रदेश (Section Social Control Social of the Control Social of the Control किंद्र की साम कि प्रतिदेश के प्रियोध के प्रयोध के प्रयोध के सामय के प्रतिप्रताय के प्रतिप्रत्य के प्रति केंद्र स्वाधिक्र, Fullament Social, New Tor 1000 के उपराध के क्षेत्र के सामय के अन्य के कि स्वाध के साम के कि प्रति के 1997 के कि कि राज्य के प्रति के कि प्रति के प्रति के प्रायक के कि के का कि कि कि के कि कि के कि के कि के कि के

्रों मान के 'केसी स्कर्भान के प्राण्गों में, कहां ननभा ' किसी मात्र को किया तलकरणे में झंबर गढ़ के अक्काभ के दौरता या किसे क्षेत्र राज्याकों के होता किसीएक संदेव रहे से पुरी भेंतर का प्रायस के कार्रिज, का किसी संबर तुर्हे हैं ना संबर्धकों जान के प्रवेशकरन के सीका, किसी नार्यकरों या किसी अड़क सुरू से साम के पुरासन 42 गंकर तुः े न भ सामन ने।-

in case of any four or goods. Whele the loss bectus in a post from a factory buoy motions on to operate factory of fight one wind second paradown during the vacuum of promoving differ-peopla in a symbolic contract which which the Vaciony of into worshourse.

- आदा में गांव विगी संस्कृत के कि के कि कर रहे । या के निर्मियोग में माक करका तात के प्रति पर केक्ट्रीय इस्पन्न पुस्क के दूस (फॉट) के मानसे में, सी सारत के बहुर किसी प्रतर में लेव को किसन के गया है। to several construction of a city of excision no goods exported to any exporte on tealling relations and a of one excertible action in Back on the reachange on the poets which are experied to the sound you be near externol mers.
- ישור שלי ספראן אפאר אין קרא א לאיר און אין איזער איזער, איזער או געב און און איזער און איזער איזער איזער איזער איזער או איזער או איזער איז
- ्रतिरि त उत्तव क उत्पादन आत्रक के सामाप्त क हिंद को कुपूर्व क्रमेद आ उत्तितिक एव आफे विभिन्न चैंडवर्ज के साथ मारव की बड़े है और ऐसे अपने के लिए को अनुस्त उत्तीत; ज दास ग्रेल्न अधिनेतन (क 2), 1948 की साथ 109 के सुबन भिका की पहुँ सारोल अपने इंस्टार्शिंद वर सार्वन, कार्यता एक अधिनेतन (क 2), 1948 की साथ 109 के सुबन भिका की पहुँ सारोल अपने इंस्टार्शिंद वर सार्वन, सार्वन, एक मार्ग एक का है। Coefficient of any data a beautifier of the difference payment of second data to the first pay of the content the transporte of this Action the differe action (Refer update action for the Second tie '
- states and the set of the state state \mathbb{R}^{5+3} of all despite states in the left of the states ° e 1

- अन्योशन अभेदन के नाण निर्मात्रिक स्थिति एक्स की त्यानकों की तानी गानिए । जेती स्ट्रिश राज्य एक त्यस स्पर्ध का उनसे कर ती हा मगरे 2007 का ब्राहका प्राप्ता जाए भेज वात स्ट्रालन इन से एक साथ करनी में दराहत हो हो रहे रहा । एएट व के आप रेज किया और मिल तथ बांद, अपनेदन देवन हो तो दिन कराव्यात के दिन प्राप्त के दिन हो है. मिल तथ बांद, अपनेदन देवन हो तो दिन कराव्यात होते दिन दिन दी है. 2007 जोवल के स्ट्रालन के स्ट्रालन के स्ट्रालन क संग्रेस करने का 19 करेक देवन दिन का दिन्द्र आहे हिन, 1000 के नेवल कि सामग्रेस वित्य का मान्स्य के दिन का स्ट्रा संग्रेस करने की 19 करेक देवन दिन के का दिन्द्र आहे हिन, 1000 के नेवल कि सामग्रेस के दिन के सामग्रेस के दिन के स 177
- ारा संसोधित करायातात भूकत इत्योभियात १९७७, २३ अनुसूध । ये अनुसार करत भाषण २४ करणा ७ थेता थे असे पर भिर्धापित ३८॥ बंग्रे यह त्यावात्मव सत्य दिल्या प्रती होत थाएए। / Here avery at supplication of C. O. as the case must be, and the order of the start device autoprofit stall feature court for stamp of Ramachine procedure of School be and being of the Court For Actu075, as and stad. 1Êr
- धे मा १९८५, रोक्टीच एत्यर शुरुष पर हेलाग्य अवीलोच स्थानादेशस्य (अ.पे.विभि) जिन्मा और 1952 में अपेत. एव प्रस्त मन्द्रियन या ही तुर्व सार्थि जिल रुपने पत्रे निवार्थ के होत्र ही ध्यान आपेत्री किया जात् है। र 7.
- (6) . उन्ते जनीहीय मार्गियेली को अनीहा अनिव्ह करने **से उन**ीधेन उसमन्द्र हिन्दा गर्गा। वभीवन र भगमानी के ¹⁹⁴⁷ and the second second second to the second secon अगेरवर्गी विकास के अधिक का कि state of the second a well as a second s

-

:: Order in Appeal ::

The present appendixes been filled by M/A World Manner old 2.5 shop energy, Near Fall Bosocing, Robord Alta Cinema (Bayangar (hereinefter reference) to as the appendix) against the Order-in Original No. 1687AC/67AX/607/2016 in the fated 27.03.2017 bassed by the Assistant Conomissioner (AG). Central Excise, EQ: Blassings (proprimation planed to as the adjudicating auchority).

Briefly stuad, it was gathered that the appellant was evading - 1 payment of service law by using larger (con plant valeties / receipts for transporting materials will out definity doing it therefore, the office and $_{1,2,2}$ (i.e. (i.e.)) an set of the oppellimit # as searched by our objects of (No nix) Katike, Binovnogar under Pattchnants dated 03-05/2012, During the section, some incriminating documents, relevant for the impuly were served under Panchmanns, Promisconting of A., 60 Pepports Rel W. 2009-10 to 2010-11, it was observed that the last of the transitional operator of Ds. 5,35,000/-, Bid 10,06,0.20- and Rs. Bud/e0.00/ from renting of ing as in any the MY, 2008 (R. 2009) ID and 2010 (Thespectively deseyond the exemption limit of Rs. 10,00,100/ limiting a year 1, was alsoobserved that even though services of "reating of tranes" fails finder Services of Supply of Taugible Goods, as defined under Section 4-5(10.3)/wwwji oj the Kunniko Art, 1994, they sha not taken egist atom har providing such services and not poid applicable service for on the scine.

5. Thereafter, statements thated 00.05.2012 and 17.05.2010; at shift Wilder Alterial Statistic Proposition of the solid appellant were recorded. Wherein of our drifted U = 9.05 of consection and non-payment of service fax. Since this out of the appellant factor and non-payment of various services and rules, a Snow Ormae Nation (SCN) P.No. V.15-184/SDVDV/2010-10 dated 30.00.2010 was issued to fact appellant. In demand of service tak or Rs. 1.01.08777 and increasing of penetry trade-Section 77 and Section of the Kuppelse Composition of penetry trade-Section 77 and Section of efficient Res. 108/201/SDSZ/DEV/3016-17 mared 27.00-2017 peaced by the fact rule. 108/201/SDSZ/DEV/3016-17 mared 27.00-2017 peaced by the fact state of service tak of Res. 1.4004477 under traveled to Section 7.2011, of the Finance Art (1994 alonget the fact out [after considering the value of service provided in the alonget the fact out [after considering the value of service provided in the



206207052067

(AY, 2005-10 s) Θ_{3} Θ_{12} and in F.Y. 2010-(1 s) Θ_{3} = 1, (2, 68)- as complete proof and by improving penalty of Θ_{3} 5000/ under Section 77(2) of the phases Act, 1994 for failure for the St 3 retarns. Rs. 10/000/- or Rs 200/ ger day, which we is higher for the period of 5 here of taking registration motor Socion C(1) and Rs. 1,40,049/moder Section 78(1) of the Singura Act, 1694. Being aggricsed by the impligned order the appellar these best this appeal.

While Bing the support opportant had contested that -

(a) The applicant was not known to service tax law and H by base not paid service tax with a bonaRde belief that U a service was not payable, surther, the service recipient had also not advised to pay service atx.

(b) On printing out by Search extension tropy have immediately paid the survey tax of Rs. 1,46,0407- and attentst of No. 46,2177. By challen factor 04-00-0013

(a) They still on contest levy of service for and so operated the officers, hey are entitled for benefit of Section 80 and accordingly, no venally should be emposed upon them. They cited judgment productived by Henfble fligh Court of Bondraw in case of Commissioner of Central Excess & Costores Vs. Ashish Varianticae Patel and in case of Central Excess Sectors Tax Vs. Carls Courtiests.

(d) Mere detection by the department does not mean that non-payment was intesticated. They have no knowledge that service tax was payable and no such last has been corrected in the SCN.

a. Heat op for the second filed by the appellent was held on 16.03.0018, which was accorded by Sine Samu Mehra, Chartered Accountant, During the heatloy, for it terated the submission made in the appeal memorint a volume the additional submission dated 18.03.2018 for consideration.

6. I nave carefully gone through the facts of free case, inclusive adjudication of the special menor and submissions range by 0 is predicted and find that appellant had not discuted the lawy of service tax and.

interest by the department. This is a pleaded to store drip, of penalty imposed on them. Accordingly, the only lastic to be departs by our in this order is whether the appellant is eligible for benefit of Section 80 of the Finance Act. 1994 or not.

7 I find shall more is no could cost the specificat had provided waware at 'Ree Noglof 'Bacgible Assolution Chance' felling media. See Jan Gig1Co[(wzzj] of the Finance Sct, 1994 and while providing strenge views they have received No. 10.06,060/ Jin K.Y. 2009. 10 and Ro. 1979060/in ICN, 2010-11 against providing such service, which was in excess to the exemption little of Ro. 1000000/ . for taking registration and payment of applicable service tax under Service Tex laws. The taxability and classification of services provided by their was never contested. Further, papers, of freshing there are no as equivilety was also a lowed by the adjusting automby and tion by doupped the dense d of $3 \times 15/048/4$ (Ref. 1.61,000)/- sets/jee tak on grows here 1.5 demonded on the BCN Less. Ra. 5.09157 les. 1/(0.029) service toy entaulared on tarm duty reserve) and confirmed only well 1/10/0257 , which we a paid by the appellant alongwith interast of Rs. (0,217) wide challan dared 04/01/1013

5. I find that though the appellant was not registered with the Srivler-Tax department at the material time, they had correctly shown the smounts received acclust the accluities of crune hiring in their financeal coords. Further, on being pointed bar, they have immediately rated registration and part the applicable service tax alongwith interest before issue for the SCN THS Silows (of 1 to appellant was under bracfide behaviour they were not required to pay tax on the solivities carried out to chan. Even High Court, or the case of CCR vs Bray Box = 3008 (12) Silors of 3 (Trus Chapter half) that =

The respondences and descinaged their liability under the Act on coming is know of the order when the department had leaved above conver notice proposing to manage the two due and to impose possibles them. The Commissioner and another the penalog imposed which Bechwe 73 of the Act and bod mechanical the resulties imposed which Bechwe 75 of the Act and 27 of the Act. As pointed and by the M. Coursel for the appollation, the penalogs success by the Commissioner (Actual circupty been muscled by the Tributed

on a finding that the fightess built resourced due to the bytonesse on the next of the respondents......the view of the above finding, there is no easy to remove the penalty impressibly the original curherity as saught in the gaugai. Append fills, by the Rowerte is displayed.

From that the present once is similar to the above reaction and therefore service 80 of the Finance Act, 1384 can be invoked to set aside the genetices imposed under section 77 at 5.78 of the Chance eq. 1994. Accordingly, the unit op at order imposing the penalties production 77 and 70 of the thrance Act, 1994 is required to be set aside the appendix required to be allowed.

5 In some of the above, spipes tiled by the appellant is allowed and the state power by the adjudicating entherity so for as impositive of pentities is concerned, is set aside

ታ። ጦ ቦ ^{። አ} अक्षेटः ्थयोग्धः।

्भोषी नाथ / Good Xath) - પુત્ર તામિયેલ્સ કર્યક્રમણ તેરેશન લિંદ ગરીલા / - Commissioner (Appen of & ODS (Audit),

No. V9/306/BVR/9017.

Drub 02.04.2016

By Regal / Speak Post A 10.

 $\mathcal{T}_{\mathcal{U}_1}$

M/s. World Marine. Old 215 Sosp Fastory, Near Patel Bearding, P-d.ivel Alice Chemia, Dhavnagar 362001.

Copy forwarded the

(i) The Coord Communications, COST & Central Excise, Ahmedabad Zons.
(a) The Commissioner, COST & Central Econse, Bhavnagar
(ii) The Deputy / Assistant Communication (A&), COST & Contral Econse, HQ, Bhavnagar.
(iv) the Deputy / Assistant Communication (RRA), COST & Contral Econse, PQ, Havnagat.
(v) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PQ, Havnagat.
(v) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PQ, Havnagat.
(v) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PQ, Flavougat.
(vi) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PD, Flavougat.
(vi) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PD, Flavougat.
(vi) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PD, Flavougat.
(vi) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PD, Flavougat.
(vi) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PD, Flavougat.
(vi) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PD, Flavougat.
(vi) The Deputy / Assistant Communication (Recovery), COST & Contral Econse, PD, Flavougat.

検路) Cuerd Pile / Nation Brang, -